

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 552] नई दिल्ली, मंगलवार दिसम्बर 5, 1967/अग्राहायण 14 1889

No. 552] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 1967/AGRAHAYANA 14, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या की जाती है जिससे कि यह अलग सफलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 5th December 1967

S.O. 4361.—In pursuance of clause (i) of the proviso to sub-section (2) of section 380ZB and of clause (i) of the proviso to sub-section (5) of section 280ZD of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the National Industrial Development Corporation, New Delhi as a financial institution for the purposes of the said clauses.

[No. 157/F. No. 1(299)66/TPL.]

S. A. L. NARAYANA ROW, Addl. Secy.

(1791)

